t Floor, Maker Towers E Wifig, Come raid TRANSFER OF STRESSED LOAN EXPOSU BUYERS (PERMITTED ARCs/NBFCs THROUGH e-AUCTION RE TO ELIGIBLE Banks/Fis)

State Bank of India invites Expression of Interest (EOI) from Eligib Participants subject to applicable regulations issued by Reserve Bank ndla/regulators for transfer of Stressed Loan Exposure of one individu unt having principal outstanding of ₹ 21.00 Crores (Rupees Twent one crores only) through e-Auction on "as is where is", "as is what is whateverthere is" and "without recourse" basis.

whatevertnerers and without recourse basis. All interested eligible participants are requested to submit their willingness to participate in the e-Auction by way of an "Expression of interests" and after execution of Non-Disclosure Agreement, if not already executed lasper the timelines mentioned in web-notice) by contacting on e-mail id dgms:r@bsl.coin. Please visit Bank's web site https://bank.sbi and click on the link "SBI in the news-Auction Notices-ARC & DRT" for further details (web-notice).

further details (web-notice). Please note that Bank reserves the right not to go ahead with the proposed e-Auction and modify e-Auction date, any terms & condition etc. at any stage without assigning any reasons by uploading the corrigendum at https://bank.bij/Click on the link "Salin the news-Auction Notices-YARC & DRT"). The decision of the Bank shall be final and binding.

Issued by Deputy General Manager (ARC)



uni: 199999MH1995PLC084618
red Office: Eastern Court, Unit No. 201-202, Plot No. 12, V.N. Purav Marg, S.T. Road, Chembur, Mumbai – 400071
Phone Nos: +91-22-25391149/50. Fax: +91-22-25391147

CORRIGENDUM TO THE 29™ ANNUAL REPORT FOR F.Y 2022 -23 OF AGARWAL INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED.

Members,
musal Report For FY 2022 - 23 of Agarwal Industrial Corporation Lamase
musal report for FY 2022 - 23 of Agarwal Industrial Corporation Lamase
musal report for FY 2022 - 23 of Agarwal Industrial Corporation
musal Report For Face
musal Report
musal
musal Report
musal Report
musal Report
musal Report
musal
musal Report
musal
musal Report
musal Report
musal Report
musal Report
musal
musal Report
musal

On Page No 5: Under the Heading "Consolidated Financial be read as "Profit After Tax" and Under the Heading Cor "Total Revenue" should be read as "Profit After Tax".



BAJAJ HEALTHCARE LIMITED

Citi: 19999MH1933RC072892 Registered Office: 602-605, Bhoomi Velocity Infotech Park, Plot No. B.39, B-39A, B-39 A/1, Rd No.23, Wagle Ind. Estate Thane West, Thane-400 604 Citi: 19999MH1953PC072892 : 022-6617 7400, Fax: 022-66177458 Website www.balgheinlt.com; Email Idi Investors@biajhealt

NOTICE

Notice is hereby given that the 30" Annual General Meeting ("AGN") of the Members of the Company will be held throu Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAMM"). The Ministry of Corporate Afriairs (NACA) has vide its General Circular nos. 2/2022 dated 5th May, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Afriairs ("MACA") read with relevant circulars issued by the Securit and Eschange Board of India ("SEM") from time to three (herealizer collectively referred to as "the Circulars"), companies and Eschange Board of India ("SEM") from time to three (herealizer collectively referred to as "the Circulars"), companies allowed to hold AGN4 through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAMM") upto 30" September, 20 without the phylosial presence of members at a common venue. In complance with these circulars and the relevant provision of the Companies Act, 2013 and the SEM (Listing Obligations and Disdosure Requirements) Regulations, 2015, the 30" Act of the members of the Company will be their through ViCOPA.

to the Intelligence of the AGM along with the Annual Report 2020-23 will be sent only by electronic mode to those Member whose email addresses are registered with the Company/ Registrar & Sahare Transfer Agent (TR&T Agent*) / Depositories in accordance with the deriversid MCA corticular and SEBI circular. The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for the financial AGM accordance with the Section 22-23 will also be available on the Company's website at www.balaiheaith.com and on the website of BSI to an Advanced SEGE schange of India Limited.

Los and National slock schringe of Irinia Junited.

Members who have no updated their bank account details for receiving the dividends directly in their bank accounts and who have not yet registered their email addresses are requested to get their details registered/updated with Link Irinia lend Private United, Registered and Transfer Repet of the Company, by writing at rinit-plead-Billinistintnes. Only make the control of the Company by writing at rinit-plead-Billinistintnes (only in the Irinia Link Irinia). Members can attend and participate in the AGM through the VC/QAVM Reality only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. All Company is providing remote e-Voting facility ("remote e-Verling") to all 18 Members to cast their votes on all resolutions which is set out in the Notice of the AGM. Members have the option to cast their votes on any of the resolutions using the remote e-Voting before and during the AGM. Detailed procedure for remote e-Voting during the AGM is provided in the Notice of the AGM.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITALAND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

PUBLIC ANNOUNCEMENT





ARKADE DEVELOPERS LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Arkade Developers Private Limited', at Mumbai as a private limited company under the Companies Act, 1956 and received a certificate of incorporation issued by the Rot, on May 13, 1986. Thereafter, our Company was convented into a public inferience company, pursuant to a special resolution private provided in a public inferience of the private p

u menny rrospecus casea August 31, 2023 ("URHP").
Registered and Comporate Office: Arcade House, Opp. Bhoomi Arkade, Near Children's Academy, A S Marg. Ashok Nagar, Kandivali (East), Mumbai - 400101
Maharashtra, India. Contact Persons: Sheela Harsels Solani, Company Secretary and Compliance Officer, Email: cs@arkade.in, Tel: +91 (22) 28874742; and
Website: www.arkade.in, Corporate Identification Number: U45200MH198PFLC039913

OUR PROMOTER: AMIT MANGILAL JAIN

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO [*] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF * 10 EACH (EQUITY SHARES) OF ARKADE DEVELOPERS LIMITED (COMPANY) FOR CASH AT A PRICE OF [*] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF [*] PER EQUITY SHARE) (ISSUE PRICE) AGGREGATING UP TO * 4,300.00 MILLION (ISSUE). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [*] WOO THE POST ISSUE PRADUP EQUITY SHARE (APTRIA OF DOUC COMPANY.

CASH AT A PRICE OF (a) PER CQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF (a) PER EQUITY SHARE) (INSUE PRICE) AGREGATING UP 10 X 4.300 MILLION (ISSUE). THE SISUE SHALL CONSTITUTE; (a) OF THE POST ISSUE PRUDIUM PEDIUTY SHARE (INSUE PRICE) AGREGATING UP 10 X 4.300 MILLION (ISSUE). THE RESUE PRICE AGREGATING UP 10 X 4.300 MILLION (ISSUE) AND THE RESUE PRICE P

REGULATIONS). In case of any revision in the Price Band, the BidIssue Period will be extended by at least 3 additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the BidIssue Period the exceeding 10 Working Days. In cases of from registers, banking stifle or similar oricumstances, our Company may, in consultation with BRUATION reasons to be recorded in writing, acted the BidIssue Period for a minimum of 3 Working Days, subject to the BidIssue Period power and the revised BidIssue Period, it applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a prese selease, and also by indicating the change on the weekled of the BRUA and at the terminate of the other members of the Syndicate and by infinition to the Designated Intermediantes and the Syndicate and by infinition to the Designated Intermediantes and the Syndicate and by infinition to the Designated Intermediantes and the Syndicate and by infinition to the Designated Intermediantes and the Syndicate and by infinition to the Designated Intermediantes and the Syndicate and by infinition to the Designated Intermediantes and the Syndicate and by infinition to the Designated Intermediantes and the Syndicate and by infinition to the Designated Intermediantes and the Syndicate and by infinition to the Designated Intermediantes and the Syndicate and Syndic

indicating the change on the webster of the BRLM and at the terminals of the other members of the Syndicate and by infination to the Designated Intermediaries and Syndrome Stanking, as applicable.

The Issue is being made in accordance with Regulation (1) of the SEBLICOR Regulations, through the Book Building Process wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified institutional Buyers (QIBB) (such portion referred to as QIB Portion), provided that our Company, in consultation with the BRLM may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor investors on a discretionary basis in accordance with the SEBL Regulations, (Anchor investor Portion), quot of which one-hird shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to wait Sids being received from domestic Mutual Funds on above the price or within allocation in the Anchor investors (Anchor investors or a discretionary basis in accordance with the SEBL Regulations, (Anchor investor Portion), quot of which one-hird shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to wait Sids being received from domestic Mutual Funds on above the price or within allocation in the Anchor investors (Anchor investors or a discretionary basis in accordance with the SEBL ROR Regulations, (Anchor investor Portion), quot of which the SEBLICOR Regulations (Anchor investor Portion), quot of the search of the SEBLICOR Regulation of the Anchor investor of the Anchor investor of the SEBLICOR Regulation of the Anchor investor of the Anchor in

participate in the Issue through the ASBA process. For further cleatils, see "Issue Procedure" on page 415 of the DRFP!

This public amountement is being made in compliance with the proviscies of Regulation A2(f) of the SEBI ICRR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake the statutory of the Company of

sk Factors on page 26 of the DRHP.

you do sind in you have been the Equity Share described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus ("RHP") has been filled with the RoC and must be desidely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to isside or the man board of the Slock Exchanges.

redated for the share capital and capital structure of our Company, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page 75 of the DRHP. The liability of members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled story and Corrian Corporate Matters" beginning on page 226 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER REGISTRAR TO THE ISSUE Bigshare Services Pvt. Ltd.

Unistone Capital Private Limited
Ar030, Dynasty Business Park, Andheri Kutal Road, Andheri East,
Munbal. 4000 Sey Mamarahth, Julia.
Tai: 491 9800057333
Fermalt me@jumstonecapital.com
Ermalt meglumstonecapital.com
Investor grievance e-mail: conglone
Investor grievance e-mail: conglone
Investor grievance e-mail: conflone
SEBI Registration Number: INM000012449

Bigshare Services Private Limited Office No. S6-2, 6° Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakakii Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, India. Tel: +91-22-62638200 Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai Tel: +91-22-82638200 E-mail: ipg@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Investor grievance e-mail: investor@bigshar Contact Persor: Jbu John SEBI Registration Number: INR000001385

neaning as ascribed to them in the DRHP. All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same r

For ARKADE DEVELOPERS LIMITED

Company Secretary and Compliance Office ARKADE DEVELOPES LIMITED is proposing, subject to the receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filled the DRHP dated August 31, 2023 with the SEBI on September 1,023 and thereafter with the Stock Exchanges. The DRHP is available to the website of SEBI at was west join, websites of the SCR. SES Limited and National Stock Exchanges is CBS. Limited and National Stock

investment docision. This amount operant does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this amount owners and in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an exemption from such negistration. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the U.S. Securities Act and the applicable was on the United States in Orishore drainsactions' as defined in and in relatince on Regulation St under the U.S. Securities Act and the applicable was on the jurisdiction where those offers and sales occur. Any public offering of securities be to made in the United States with the match by preasor algoritized, that may be obtained from the issuer or the saling security folder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. No

Date: 02.09.2023

Sd/-E. Mounagurusamy (DIN 01461523) Whole time Director

Ravi Kumar Distilleries Limited

(CIN: L51909PY1993PLC008493) Regd. Office: C-9, C-10, Industrial Estate, 2nd Main Road, ttanchavady, Puducherry-605009, India. Tel No: 0413-2244007 2248888, 2248887, E-mail: cs@ravikumardistilleries.com

Date: 01/09/2023 Place: Thane

NOTICE OF 30th annual general meeting and book closure

NOTICE OF 30" ANNUAL GENERAL MISETIME AND BOOK CLOSURE NATION OF STATES OF THE AND S

AGM ("E-voting). We rebustly a silver in physical form or in dematerialised form as or useful of died of (record date) 13.09.2023 may cast their viole electronically on the Ordinary (Secola Businesses as set-out in the Notice of 30" Annual General Ordinary (Secola Businesses as set-out in the Notice of 30" Annual General Ordinary (Secola Businesses as set-out in the Notice of 30" Annual General Annual Committee (Secola Businesses as set-out in the Notice of 30" Annual General Annual Committee (Secola Businesses) (Secola

vote on a resolution is cast by we share-envisor. As a many that a popular to change it subsequently. It utters bettly, Practicing Company Secretaries, Mumhala as the Scrindizer for conducting the e-verting and voting process at AGM in a fair and transparent manner. For information regarding the facility for voting through Ballot paper and appointed proxy, kindry refer to website of the Companies, ACM for the Companies, ACM for the Companies ACM for the Comp Place : Puducherry Date : 02.09.2023

KASHIPUR HOLDINGS LIMITED

CIN: U67120UR1996PLC020938

Reg.Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur- 244713

Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Ph.: 05947-269500, Fax: 05947-275315

NOTICE

both. Unberlishing irregion, Unarian Intil. 1711. 10987-129900, Pat. 10987-1293 ST "DITTIES" (2014) Granul American Intil. 1920 September, 2023 at 12:39 pm. (IST) through Video will be held on Monday, 299 September, 2023 at 12:39 pm. (IST) through Video Conferencing IVCL') other Audio Visual Means ("OAM") facility to Inseased business see tout in the notice of 298 AGM in organization of the applicable provisions of the Companies AC, 2013 and Relise Immed thereander, read with General Crossal No. 195 2020; 13:10 1202; 16:65 2022 and 25 21:2027, expecietly issued by the Minney of Corporate Affairs without the physical presence of the Members at a common venue. The Deemed venue for 2029 AGM shall be the Registered office in 4-1, Houkstail Associa-Bazpur Road, Kashipur-244173, Distr. Unbam Singh Nagar, Ultrarkhand. The September Video Crossal AGM shall be Affairs Affairs with the Company (Deposity Participants), Members bidding shares either in physical orm or in dematerialized form, as on the out-off date of 189 September, 2023 may cast their vide electronically shough sections on Firthy 239 September, 2023 at 1000. In the rome of Participant of Participants of Participants are incomed that in 1990 periods of Participants on Firthy 239 September, 2023 at 1000. In the rome to Verding shall common on Firthy, 239 September, 2023 at 1000.

osciator) services (timulo, timulano (LoSs.), 7-w life interflees are intrinsed trial the nenote e-Volting shall commence on Friday, 22rd September, 2023 at 150 p.P.M. A.M. and shall end on Sunday, 24rd September, 2023 at 150 p.P.M. 22th AGM by emal and hostomes Member of the Company after sending the Notice of the 22th AGM by emal and hosting shares as on the out-off date my other 22th AGM by emal and hosting shares as on the out-off date my other Do and password by sending a request in hippose, evolving glodination on CSSL for remote — Volting, then existing user (D and password can be used for CSSL for remote — Volting, then existing user (D and password can be used for the control of the contro

CDSL for remote e- Voting, then existing user ID and password can be used or casting vote: the Members who cast their vote by remote e- Voting prior to the 26th AGM may participate in the 26th AGM through VCOMM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 26th AGM; and the Notice of the 26th AGM is variable to me the webste of CDSL at water to comprise the 25th AGM is variable to the webste of CDSL at water to comprise the 25th AGM is variable to the webste of CDSL at water to comprise the 25th AGM is variable to the webste of CDSL at water to comprise the 25th AGM is variable to the very growing necessity details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share conflicted (front and beach, PAM Self altrasted scanned copy of PAM card). ADMHAC (self attested scanned copy of Aarbar Card) by email to predict onouther light displayeds come or deming@incregitates.orm demote holding shares in demat from can update free remail address with their Depositor Participant.

Register of Members and the Share Transfer books of the Company will ternain seed from Tuesday, 19th September, 2023 to Monday, 25th September, 2023 th days inclusive.

Date: 02.09.2023 Company Secretary



NOTICE TO SHAREHOLDERS

E-fall treambarreposerrelith-light and Lord Wedner www.cambarreposerrelith.com Notice in the TUTE TO SHAREHOLDERS are Member(s).

Notice is hereby given that the 88th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened at 10.00 AM IST, on Wednesday, the 2TID bay of September, 2023 through Video Conference ("C")" / Other Audio-Wissal Means: ("Will be circulated for convening the Basis Act, 2013. In compliance with the applicable provision of the Companies of the Compa

purpose of reckning the quorium unions section 103 of the companies Act, 2013. Notice of the 88th AGM and the Annual Report will be made available on the website of the Company Le, www.coimbaloregioneermills.com. The website of the Company Le, www.coimbaloregioneermills.com. Only the below the properties of the companies may download the prescribed forms from the Company. Link Intime India Private Limited at https://linkintime.com/. Members may download the prescribed forms from the Company's website at www.coimbaloregioneermils.com.

may obwited the peschied don'ts from the Company's wedset at www.combaturepioneemilis.com. Members holding shares in physical from or who have not registered the -email address with the Company', RTA may cast their vote remotely on the business as set from hin the Notice of the AGM brough remote evoling or through the e-voting system during the AGM. The manner of voting remotely for shareholders will be provided in the Notice to the shareholders.

ur young remousy for snarendders will be provided in the Notice to the shareholders. Please note that the email ID thecoimbatorepioneermillstid/gigmal.com is designated for the purpose of enabling shareholders to obtain Notice of the 88th AGM Annual Report and / or login details for joining the 88th AGM through VClOAWM factly including e-voting. Considering the above, we urge the shareholders to update their e-mail ID. Bank account details & Permanent Account Number (PAN) with the Company / RTM Depository Participant to ensure receipt of the Annual Report, and / or any other consideration and other communications from the company. the company.

The above information is being issued for the information and benefit of all he Members of the Company and is in compliance with the MCA Circular/s.

For The Colimbatore Ploneer Mills Ltd



IMAGICAAWOTI ETITETTAITITTET LIIITET
ON: 12430Mirto Polt (1992)
Registered Office: 30/31, Sangéewadi, Khopol-Pail Road, Taluka Khalapur,
District Rajagad (102), Maharashira, India
Corporate Office: 201; 2nd Foor, Landmark Building, New Lirik Road,
Andherit (West), Murmal 400 SS, Maharashira, India
Left + 91 Ze (340) 4000.

Email: compliance@iringsicaaworid.com | Webtile: www.imagicaaworid.com

NOTICE OF THE FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF THE FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is herby; owin that the Fourteenth ("14") Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Imagicaavoid Entertainment Limited ("the Company") will be held or Monday, September 25, 2823 at 11-30 a.m. through Video Conferencing ("VC") Other Audio Vissal Means ("OAWAT) without any physical presence of Members in Compliance with the applicable provisions of the Companies 42, 2013 ("the AGM Andio Vissal Means ("OAWAT) without any physical presence of Members ("Rules read with General Circular 10.2022 dated December 28, 2022 assaed by the Ministry of Companeth Afrias and SEGI Increase in SEGI MICTORY Policy 2016/10.2024 and with General Circular 10.2022 dated December 28, 2022 seased by the Ministry of Companeth Afrias and SEGI Increase the Segiones as set out in Nicitor 64 AGM. In compliance with the above Circulars, the Company has sent Notice of Hac AGM and the Annual Report Through electronic mode on Sectember 01, 2023 to those Nembers of the Company whose email address(se) are registered with the Company of Deposition Section 10.2016 ("SEGI Usafas Administration of Section 10.2016 to Company of Deposition Section 10.2016 ("SEGI Usafas Administration 10.2016") and the Video of AGM. Share a manual Report Through electronic mode on Sectember 01, 2023 to those Nembers of the Company whose email address(se) are registered with the Company of Deposition Section 10.2016 ("SEGI Usafas Administration 10.2016") and the World of the Stock Enchanges, i.e. SEG Limited and National Stock Exchange of India Limited Lis. 2016 ("SEGI Usafas Administration and Vigory English (accommission Place)" and on the website of Company's Registra and Stane Transfer Agent ("Imp2"), "Miss Administration India Limited Lis. 2016 ("Impany's Registra and Stane Transfer Agent Higgs"), with Reside Districts indistribute and Mathonal Stock Exchanges of India Limited Lis. 2016 ("Impany's Registra and Stane Transfer Agent Higgs"), with Reside Limited List of the St

Company's Registrar and Share transfer agent tripps, "Instance Linkettime, co.m. In terms of Section 160 of the Act read with Paile 20 of the Companies (Management an Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEE Listing Regulation and Secretaria Mediting (SSC) issued the Instantian of Company Secretarias of India, the Company is pleased to offer to it Memberose that claimly of "remote e-voring "provided by LIPL" to enable them to ast the vote by electronic means on all the resolutions as set out in the said Notice. The provided to the claim of the said Notice 1 and the resolutions as set out in the said Notice. The provided to the claim of the said Notice 1 and the said Notice 1 and the resolutions are set out in the said Notice. The provided to LIPL has been described in the Notice.

The entire eventure using e-voting system of LIPL has been described in the Notice of AGM.

The mente e-voting period commences on Thursday, September 21, 2023 at 69:00 am. (IST) and ender on Sunday, September 24, 2023 at 500 pm. (IST) and ender on Sunday, September 24, 2023 at 500 pm. (IST) and ender since of the Company, holding shares either in physical form or in demaherialized brand, as on the cut-off date is. Monday, September 18, 2023 may establish or the state of the company and the state of the company and the state of the cut-off date in Monday, September 18, 2023 may establish or the state of the s

ibers are advised to register/update their e-mail address with their DPs in case as held in electronic form and to the Company and/or its RTA in case of shares he

in case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAGS) and Instalvote e-Voting manual available at Instalvote e-Voting manual available at Upadhysy, Associate Technology at enotices@inlikntime.co.in or contact on: -1et :022 4418 6000.

Place: Mumbai Dated: September 01, 2023

Reshma Poojari Company Secretary & Compliance Officer

वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड

(CIN - L51909DL2002PLC163727)



पंजीकृत कार्यालय – 610-611, गुरु राम दास नगर, मेन मार्केट, एसबीआई बैंक के सामने, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली – 110092 कॉपोरेट कार्यालय – प्लॉट नं. 862, उद्योग विहार, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज – V, गुरुग्राम – 122016 (हरियाणा). टेलीफोन: 0124-4640030; फैक्स: 0124-4640046; ईमेल: cs@vmart.co.in; वेबसाइट: www.vmart.co.in

नोटिस

कंपनी अधितियम, 2013 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीधा, स्थानांतरण और बापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के बतुसार, विश्वीय वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम लागांश, विस्तका सुनतान सान वर्ष की अवधि बत्त नहीं किया गया है और जिसके ऊपर कोई दावा नहीं किया गया है 3 दिसंबर, 2023 को या उससे यहले निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईटीएफ') में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और उन सभी सदस्यों के मेयर, जिन्होंने लगातार 7 (सात) वर्ष या उससे अधिक समय के लिए लाभांश का दावा नहीं किया है, वे शेयर निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में । । नांतरित किए जाएंगे।

स्थानातारता केए जाएग। उक्त नियमों के अपनायन में, कंपनी ने उन सभी संबंधित सदस्यों को व्यक्तिगत नोटिम भेजे हैं विजके शेवर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने हैं। ऐसे सदस्यों की पूर्ण जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.vmart.co.in पर उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में, संबंधित सदस्य कृष्या इस बातों को इसाम में एवें: (क) वे सदस्य जिन्हें पासि फिहिक्क कर्म में बेयर ईं- नियमों के अनुसार, आईईपीएफ में बेयर स्थानांतरित करने के उद्देश्य से कंपनी सदस्यों के पास मौजूद मूल शेयर सर्टिफिकेट/ सर्टिटिकेट्स के दहने में नया शेयर सर्टिफिकेट/ सर्टिटिकेट्स उन्हें जारी करेगी, जिसके बाद उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर सर्टिफिकेट/सर्टिफिकेट्स अपने आप ही रद्द हो जाएंगे और गैर-परक्राम्य

(ख) व सनस्य जिनक पास इलेक्ट्रानिक रूप में शयर हैं - आईडेपीएफ में स्थानांतरण के लिए उनके डीमेंट खाते में से उचित संख्या में अर निकात तिए आएंगे. आईडेपीएफ में अपने शेयरों का स्थानांतरण रोकते के लिए, कोई भी मदस्य जिसका नाम उपरोक्त मूची में शामिल है, उने लाभील पर बाब करने के लिए अपने केवाईसी स्तावेद, जैसे कि पैन की स्व-स्थापित कोंगी, कैनल किए एए चेक का पत्रा साथ में पत्रे के सब्त के तौर पर विज्ञती शैंग्र/ पानी आदि के नवीनतम दिल के साथ-साथ अनुरोध पत्र को 3 नवंदर, 2023 को या उसमें एक केवाईसी अर्थित केवाईसी केवाईसी केवाईसी केवाईसी अर्थ फोन: +91 40 6716 1606 व einward.ris@kfintech.com पर भेजना होगा या किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए

3 नवंबर 2023 तक सदस्यों दारा रकिरी शेयरों के संबंध में कोई मान्य दावा नहीं मिलने की स्थिति में कंपनी उक्त नियमों हे 3 नवंबर, 2023 तक सदस्यों द्वारा इंडिटी गेयरों के संबंध में कोई मान्य दावा नहीं मिलने में स्थिति में, केपनी उक्त नियमी में नियोरित अवश्वश्रवाओं के अनुपानन दीवना कोई अतितिक मून्ता रितृत यव गोहक को आईटीएंगिए से दावा रहित लाओं और संबंधित इंडिटी शेयरों के संबंध में कंपनी के बिक्द कोई दावा निहित नहीं होगा। कंपनी से समयबद्ध तरीके से पत्रावा स्थानांतरित इंडिटी शेयरों के संबंध में कंपनी के बिक्द कोई दावा निहित नहीं होगा। कंपनी से समयबद्ध तरीके से पत्रावा एकों के खिल, यहित कोई, सरदायों के प्रोत्तेष्ठ हैं के सुंकालत तंत्रक्षितिकारिता पर आदीए के पाप (दि शेयर होमदीरिकाइज्ड रूप में फिब्रिक्तू रूप में रखे वए हैं) और अपने हियांकिटरी पार्टिसिपेंट/पार्टिसिपेंट्स के पास (विद शेयर डीमदीरिकाइज्ड रूप में रखे गए हैं) अनुरोध भेजकर अपने ईमेल पतों का पंजीकरण कराएं।

ध्थान: गुरुग्राम **देनांक:** 01 सितम्बर, 2023

कृते वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड हस्ताक्षर: मेघा टंडन (कंपनी सचिव)



Insight Out

(भारत सरकार खनिज भवन', 10-3-311/ए, कैसल हि नेगम पहलान जंग्या जिल्हों

शुद्धिपत्र संख्या 2 दिनांक 02/09/2023 संविदा विभाग

जारी कर रहा है: निवेदा पुरुषाण कंपाया: मुश्लिक्य)एसबीमीटीबीएसप्से—॥परेकज- १९४४ दिनांकः १७.०८.२०२२ एपस्परितारीको निवेदा संदर्भ सं. एएएमबीसी तप्यक्षो ७.५८.२४.२४.२४.६४.२४.४ व्यक्ति। इत्यक्ति कि विकरण: वोशिमते कोम्पतिक कोम्पतिक में टर्जक में टर्जकी आधार पर दिसिंग वा के कि क्षादा: इंकीलिया पर निर्माण के बाता चार १७ एपरीयी पहित उसकर करियों ऐनिकिश्यार वर्जाट—॥ (एसपी-॥) के किजाइन, इंकीनिवरिंग, विनिमाण, आधुर्ति, इरेक्शन

llam एवं अनेशानिग 'पंत्रका निर्मेश के विश्वा मुद्रियन सं 2. निर्मेश कामजाज एवं अन्य मुद्रियन एनएसकीर समझ्ट http://mmdpontals.mmdc.co.in/mmdchander केंद्रीय सार्वजनिक खंदीय सौटं https://www.eprocure.go.vin/epublish/app कांग्र । एनएसोटीमी मोर्ट र https://www.eprocure.go.vin/epublish/app कांग्र । एनएसोटीमी मोर्ट र https://www.mstcecommerce.com/eprochome/mmdc/buyer_login/app ग 00002023 तक अवस्थानिक सार्वाध्यास वार्यकारी तके एन स्वर्थन हैं के 10002023 तक अवस्थानिक सार्वाध्यास वार्यकारी आप प्रकार केंग्र सार्वाध्यास वार्यकारी आप प्रकार केंग्र सार्वाध्यास वार्यकारी कांग्र प्रकार केंग्र सार्वाध्यास वार्यकारी आप प्रकार केंग्र सार्वाध्यास वार्यकारी आप प्रकार केंग्र सार्वाध्यास वार्यकारी कांग्र सार्विध्यास वार्यकारी कांग्र सार्वाध्यास वार्यकारी कांग्र सार्विध्यास वार्यकारी कांग्र सार्वाध्यास वार्यकारी कांग्र सार्वध्यास वार्यकारी कांग्र सार्यकारी कांग्र सार्वध्यास वार्यकारी कांग्र सार्वध्यास वार्यकारी कांग्र सार्वध्यास वार्यकारी कांग्र सार्वध्यास वार्यकारी कांग्र सार्यकारी कांग्र सार्वध्यास वार्यकारी कांग्र सार्यकारी क

अधिशासी निदेशक (वर्कस)

Markets.

Insight Out

To book your copy, reachbs to 57575 or

Business Standard

Insight Out

M.P.MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.

(Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)
Nishtha Parisar, Bijlinagar, Govindpura, Bhopal-462023
Phone No.: 0755-2602033-34, Fax No.: 0755-2589821, gmproc04@gmail.com
Website: https://mptenders.gov.in, CIN Number: U40109MP2002SGC015119
No. MD/MK/04/Abgd.NIT/2019
Bhopal, Dated: 01.09. Bhopal, Dated : 01.09.2023

TENDER NOTICE

MPMKVVCL, Bhopal invites following bids through E-tendering.

Tender Specification Number	Particulars n	Approx. Value (Rs. Cr)	Tender Fee Including GST @18% (in Rs.)	Date of Pre-Bid Conference	Date of Opening of Tender
MD/MK/ 04/975	Survey, Supply and Installation of ACDB, DCDB and Marshalling Box along with Replacement of Defective OTI, WTI, MOG and Switches, Indication Lamp, Ammeter, Voltmeter and Other Panels Equipments etc. at various 33/11KV Substation Under Substation Renovation Work on Semi Turnkey Contract Basis in MPMCVVCL, Bhopaal.	6.54	11800/-	11.09.2023 3:30 pm	19.09.2023 3:30 pm

Other details are available on Company website https://portal.mpcz.in & CHIEF GENERAL MANAGER (PROC.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE
AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE. PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

PUBLIC ANNOUNCEMENT





ARKADE DEVELOPERS LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Arkade Developers Private Limited', at Mumbai as a private limited company under the Companies Act, 1956 and receive certificate of incorporation issued by the Rox, Co n May 13, 1986. Thereafter, our Company was converted into a public limited company, pursuant to a special resolution of the company of the company of the company was converted into a public limited company, pursuant to a special resolution of the private of the company of

OUR PROMOTER: AMIT MANGILAL JAIN

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [a] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 7: 10EACH (EQUITY SHARES) OF ARKADE DEVELOPERS LIMITED (COMPANY) FOR CASH AT A PRICE OF [a] PER EQUITY SHARES (INSUE PRICE) AGGREGATING UP TO 7: 4,300.00 MILLON (RISUE). THE SISSUE SHALL CONSTITUTE [a] OF the POST INSUE PROJUME CAPTION OF UNCOMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BERLM, MAY CONSIDER A PRE-UP CHACKENET AGGREGATING UP TO 7: 200.00 MILLON, PRIOR TO FILING OF THE EED HERDING PROSPECTUS WITH THE ROR. IT HE PEREI-OP LACEMENT SHALL BE KINDERT ACHE AT THE DISSIPRETION OF DO 10E AND AND THE BERLM PRICE OF THE FEULT SHARES ALL OTTED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE KINDERTEN OF A 12TH OF 10E AND AND THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE KINDERT ACHE AT THE DISSIPRETION OF OUR COMPANY (IN CONSULTATION WITH THE BRIM. IT HE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SURPHY (IN CONSULTATION WITH THE BRIM. IT HE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SURPHY (IN CONSULTATION WITH THE BRIM. HE THE BERD HE THE SHALL BE REDUCED TO THE EXTENT OF THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL HOT EXCEPT ON THE SURPHY (IN CONSULTATION WITH THE SIGNAL THE HE BISS. IT HE ISSUE THE SIGNAL BE REDUCED A TO BE EXPLAINT OF THE SIGNAL TH

REGULATIONS).

In case of any revision in the Price Band, the Bislissue Period will be extended by at least 3 additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Sulfissue Period or exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, barning sinke or similar circumstances, our Company may, in consultation with BRLM for essents to be recorded in writing, actiend the Bislissue Period for a minimum of 3 Working Days, subject to the Bislissue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision the Price Band and the revised Bislissue Period. 4 applicable, sale to welvely dissumed by notification to the Stock Exchange, by its sixing a press release, and also by concluding the change on the webball of the BRLM and at the terminals of the other members of the Syndicate and by intrinsion to the Designated Intermediates and the Sporoso Bank(a), a segliciable.

indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the other members of the Syndicate and by infination to the Designated Intermediates and the Sponsor Bank(s), as applicable.

The Issue is being made in accordance with Regulation (1) of the SEBI LORR Regulations, through the Book Building Process wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified institutional Buyers (QBBs) (such portion referred to as QIB Portion), provided that our Company is consistation with the BRLM may aplicate up to 65% of the QB Portion A fortion investors or a discretionary basis in a coordance with the SEBI LORR Regulations. (Anchor Investor Portion), util or which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid 96th september of the CB Portion A fortion, and so and so another investors or a discretionary basis in a coordance with the SEBI LORR Regulations (Anchor Investor Portion), but of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid 96th september of the Manual Funds of the CB Portion, the balance Equity Shares shall be a validate for allocation in the Anchor Investor (Anchor Investor Portion), and the remainder of the Net CIB Portion. The balance Equity Shares available for allocation and the appropriate basis to Non-institutional Investor and the available for allocation in the Anchor proportionate basis to Non-institutional Investors and the available for allocation in the Mutual Fund Portion with the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net CIB Portion. The balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion with the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net CIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion with the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net CIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion with the aggre

participate in the Issue through the ASRA/process. For further details, see issue Procedure on page 415 of the DRHP.

This public amountment is being made to normalize with the provisions of Regulation and 2012 of the SEIDLORR Regulations to Inform the public that our Company propaging, subject to applicable statution and regulation requirements, receipl of requisition approves, market conditions and other considerations, to undertake a ministry being the public of the European Company and the East of the SEIDLORR Regulations, the DRHP Bled with SEID in SERMENT 2023 and the sense through the SEIDLORR Regulation and the SEIDLORR Regulations, the DRHP Bled with SEIDLORR SEIDLORR Regulations and the SEIDLORR Regulations, the DRHP Bled with SEIDLORR SEIDLORR Regulations and the SEIDLORR SEIDLORR SEIDLORR Regulations, the DRHP Bled with SEIDLORR SEIDLORR SEIDLORR SEIDLORR REgulations, the DRHP Bled with SEIDLORR SEIDLORR

Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM on orbefore 5.00 p.m. on the 2" day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI. Investments in equity and equity-related accurates unless they can affect so express the secretary and equity-related accurates investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the issue. For taking an investment decision in the investment of the inve

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
UNISTONE	Bigshare Services Pvt. Ltd.
Unistone Capital Private Limited A105. Dynasy Business Park, Andreiri-Kurla Road, Andheri East, Murnba: 490 US9, Maharashira, India. Ta: +9,900057333 E-mail: nb@gmistonecapital.com Webster: www.unistonecapital.com whester: www.unistonecapital.com Contact Person: Bigesh Paralle SEB Registration Number: RNH000012449	Bigshare Services Private Limited Office No. 56. 2, 9 Floor. Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Matakait Caves Road, Andheri Eset, Mumbai - 400093, Maharashtra, India. Tel. +91-24-26/appl. E-mail: po@bigshareconline.com Webshare was kippshareconline.com Investor grievence e-mail: investor@bigshareconline.com Contact Person, Jibu John SEBI Registration Number: INR000001385

Sheetal Haresh Solani Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai Date: September 1, 2023 ARKADE DEVELOPERS LIMITED is proposing, subject to the receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, or undertake an initial public offering of its Equity Shares and has flied the DRHP dated August 31, 2023 with the SEB on September 1, 2023 and thereafter with the Stock Exchanges. The DRHP is available on the website of SEB it at www. sets indica in the set of the SEB on September 1, 2023 and thereafter with the Stock Exchanges is a SEB Limited and National Stock Exchanges is a SEB Limited and

investment decision.

This amount enterment dees not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this amount not be officed or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an exemption from such registration. Accordingly, the Equity Shart large of the property of the Control of the United States with exemption of the United States with exemption of the United States with exemption of the United States with ex

Business Standard

गणेशा इकोवर्स लिमिटेड

(पूर्व में एस.वी.पी. लिमिटेड) सी.आई.एन. : L13114012003PL0118413 कार्यालय- पी3-211, द्वितीय तल, सेन्ट्रल ख्वाय लाल खुराना मार्ग, बारा हिन्दू राव, दिल्ली – 110 haecovers@gmail.com वेबसाईट : www.ganes

20वीं वार्षिक सामान्य सभा, बुक क्लोजर व ई वोटिंग की सूचना तदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 20वीं वार्षिक सामान्य सभा गुरूवार 28 सेतम्बर 2023 को अपरान्ह 01:00 बजे से वीडियो कान्फ्रेन्सिग (VC)/ऑडियो

सितान्तर 2023 को अपरान्त 01:00 बजे से वीडियो कान्केन्सिया (VC)/अंडियो विचुक्त मीम्स (DAVM) के माध्यम से आयोजित की जायोगी। विचुक्त मीम्स (DAVM) के माध्यम से आयोजित की जायोगी। कार्पार्थित कार्यार्थित माध्यम ने महायद (प्रस्तिपी) द्वारा जारी परिशत्क कि 02.81.2.022. वि.0 60.5.02.02, वि.0 13.04.2020. वि.0 60.6.2020, वि.0 13.04.2020. वि.0 60.6.2023, वि.0 13.04.2020. वि.0 60.1.2023, वि.0 13.05.2022 वि.0 12.05.202 के ज्यापान्त के सहस् कार्यार्थित कार्यार

एस व्यात्म जा कि गांदर के पंत्र पांत का वि कमना के सदस्य मंत्र है से कटकिए कि विद्या है है हैं – वो दि ग के ति ए evoling@nsdl.co.in अध्यय ganeshaecoverse@gmail.com, Bssdelhi@ bigshareonline .cor पर है—मैत मेकक कमना यूजर आहंडी व पासर्व प्राप्त कर सकते हैं। रिमोट है वोटिंग से मतदान की अनुमति 27 सिताबर 2023 को साधकात है को से तकत सी हैं।

बाद नहीं होगी। बैठक में भी ई-बोटिंग सुविधा उपानब होगी, ऐसे सादस्य विन्होंने रिमोर्ट ई-बोटिंग से पहले बोट नहीं दिया है वे बैठक में ई बोटिंग के माध्यम से अपने बोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे सादस्य जिन्होंने बैठक से पूर्व रिमोर ई-बोटिंग हारा अपना बोट कर दिया है, वे भी बैठक में उपास्थित हो सकते हैं किन्तु उन्हें पुन्त बोटिंग की अनुमति नहीं होगी। वह सादस्य जिन्हा मा मा मुख्तार 21 (सोनव्य 2023 किट बोठिंग की किन्तु के क्यों के के सादस्य चिनान्य मा मुख्तार 21 (सोटिंग अध्या बैठक में ई बोटिंग कर सम्बार्ट हैं।

1800 22 44 30 पर एनएसडीएल से सम्पर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी शिकायत पर निम्न से सम्पर्क करें मिस पल्लवी महातरे, मैनेजर—NSDL या मिस सोनी सिंह असिस्टेंट मैनेजर — NSDL टेड़ वर्ल्ड 'ए विं चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपालंड, सेनापति बपत मार्ग, मुम्बई। ईमेल evoting@nsdl.co.in or pallavi@nsdl.co.in or soniS@nsdl. co

कृते गणेशा इकोवर्स लिमिटेड (पूर्व में एस.वी.पी. लिमिटेड) स्थान- कानपुर दिनांकः ०१.०९.२०२३



पंजीवृत्र कार्माल्य. 40—402. त्या टाय. जाराष्ट्रण कार्मियल वोत्तेस्म दिल्ली—11003 स्थितः (अप्ति क्षेत्रस्त क्षित्रस्त क्षेत्रस्त क्

साय पढ़ा जाना जाएए, न लाक्क आन बढ़ेक PAGMY /VC/GAMM क्यांप्य से वहरंख को कर कर किया है जो है जो किया है जी किया है जो किया है जी किया है जो किया है जो किया है जो कि

सकता है। हैं ने जिस मंत्रालार, 19 विलंबर, 2023 (सुम्ब 0900 बजे) से गुरू होंगी और मुक्ताना रहें नीहींग की आपि मंत्रालार, 19 विलंबर, 2023 (सुम्ब 0900 बजे) से गुरू होंगी और मुक्ताना रूट सितंबर, 2023 (0500 बजे 15) (सेनी दिन मार्गिक्त) को सम्मापत हो बाएपी। इस आपि के दौरान रूट करों है। इसके बाद ई नोहिंग मंजुब (2055 हात्र अध्या कर दिया जाएगा। वृद्धि अध्या कर प्रधान कर दिया जाएगा। वृद्धि अध्या कर प्रधान कर दिया जाएगा। वृद्धि अध्या कर प्रधान कर दिया कर प्रधान कर दिया कर के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के समान हो अध्या के समान हो अध्या के स्वार के स्व

प्रणाली के माममा में महत्त्व करने के पात होंगे। कि महत्त्वारी गोरिक में बेलिय के माममा में महत्त्वा निकार है, बैठकार में भाग लेने के पात होंगे और उनकी उत्तरिक्षी लोगा के मामेन के लिए मिना कराया, हातांकि तेने के पात पात कर कर्मकारी पर Aush दिवार के हमाने के क्यान नहीं की क्या मा प्रणास कर की ती ई-बोटिंग के माममा में बोट डाल पूर्व के है। सहस्वी का महत्त्व अधिकार के शिक्त 2022 (कट-के आहे कि माम में माम में बोट डाल पूर्व के है। सहस्वी का महत्त्व अधिकार के शिक्त कर अध्या के स्वी के आहे तिथि तक के प्रणास के प्रणास हों कि ती माम होंगे पर के बहान के पात है होते हैं के अपना में में होंगा। कोई भी व्यक्ति को कट-और हिंगि पर करनी का सहस्व है वह निमोर्ट ई-वेदिंग का अध्या में होंगा। का उपयोग करके Aush के नीटिंग में निपारित सभी प्रसादों पर बोट देने के शिवार को

देने के लिए पान है। एक व्यक्ति विसमें घोपर खरीदे हैं और AGM की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य है औ कट-अफि तिसि राक ग्रेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरारी अंकाब्स लोगिन अब्दि और सामदाई प्रात्त कर सम्बता है। हालांकी, प्रदि व्यक्ति स्थाप दें के विर के लिए पहले दो ही CDS. के साथ पर्जीकृत है तो बोट डालने के लिए मोजूदा पूजर आईडी औ पासदर्क के प्रचाना कर सकता हैं।

पासवर्द का उपयोग कर सकता है।
AGM में भाग तेने और रिगोर ई नोटिंग से संबंधित विरयत कि लिए कृपणा AGM की सूचना देखें,
AGM में भाग तेने और रिगोर ई नोटिंग से संबंधित विरयत के लिए कृपणा AGM की सूचना देखें,
AGM में भाग तेने और देखें,विर्मेश मामाम से ई नोटिंग में अर्थस में किसी भी प्रश्न के मामते में,
कुणा अस्पर पूछे को नाते हो प्रश्न (FAC) है देखें और ई नोटिंग में अर्थस अर्थक अर्थका का प्रश्न स्वात्त के स्वात्त के अर्था के अर्थका के अर्यक्त के अर्थका के अर्थक

m & and managed and measured and managed		
भौतिक धारण	स्व-सत्पापित सर्वापक दस्तावेजों और अन्य प्रास्तिक कॉर्मों के साथ विधिवत भरें गए निर्वारित कॉर्म आईस्स्कार- में विकरणों को कंपनी के अतिकट असाइनार्यर्श सिक्टिंट, रविस्तुर कोर ट्रांसफर एकेंट के साथ rameshk (palankit.com पर प्रिस्टर/अपउेट करें। सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://www.insecticidesindia.com/investors- desk/सैनिप्रार्थित कोर्म डाउनलीड कर सकते हैं।	
डीमैट धारण	संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/	

इन्सेक्टिसाइडस (इंडिया) लिमिटेड के लि

अपडेट करें।

दिनांक : 31/08/2023 स्थान : दिल्ली

MT EDUCARE

एमटी एज्युकेअर लिमिटेड सीआवएन :एल८०९०३एमएच२००६पीएलसी१६३८८८

पार्चन अपार्चन अपार्चन १९८० ०० ३४ आहम्म १९८० व्याप्तस्य १९८८ नंदिस्पीकृत कार्यास्य १२०, २४ मश्रम् ("स्वारीय अस्ति" प्रीडी दि दश्त व्याप्त्रस्य प्राप्तः प्रस्त्रीयम् असे वि. सुन्द्री (प्रिप्तः), मुंबर्-१००००० वेबस्पाइटः www.midducane.com कार्यारेटः १२०, कार्टिनेटल विलिङ्गा, इ.ए. एसे वी.इ. प्रस्ती, मुंबर्ट -४०००१८ प्रस्तिकाकि/midducane.com हृष्यस्येटः २२२-२९१३ ७७००/८०० (१०० केबसाः २२२-२९१३ ७

िक्यांच्या निक्या ६ वृत्या, «

या उर्देश व्यक्त का तम्योग करणाया है ये आपनेत सम्याग देशीग (www.mitescusses =

या उर्देश वृत्या कर तमार्थिक करणाया है ये आपनेत सम्याग देशीग (www.mitescusses =

या उर्देश के अहंदे , hitps://www.mitescusses.com/selasticopy-communication मां क्षेत्र

के आपने हैं पहुन कर के अहंदे के अहंदे के वृत्या करणाया सहुत है ये यह अहंदे के अहंदे के अहंदे के अहंदे के स्थान करणाया है अहंदे के यह अहंदे के अहंदे के

. सुरू करल. स्पर्थीकरणाध्या बावतीत, भागधारक कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटशी मेमर्स हिंग त. लि., सी -१०९, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी (परियम), मुंबई-४०००८३ थे त., किंगा ट्राप्टबर्ग क्र.: (०२२) ४९१८६२७०, ई-मेल: iepf.shares@linkintime.co.i

एमटी एज्यकेअर लिमि

बैंक ऑफ इंडिया BOI 🜟

कांदिवली शाखा, ८८, संघवी चेंबर्स, डॉ. दळवी क्रॉस रोड कांदिवली (पश्चिम), मुंबई-४०००६७ दुर.: २८०५४७६४, फॅक्सर: २५०८३६६९ २८६४६९६७ ई-मेल: kandivli.MumbaiNorth@bankofindia.co.ir

जोडपत्र IV (नियम ८(१) पहा) किञ्जा सूचना (कलम १३(४))

, भरीकार हे बँक ऑफ इंडिया, कांदिवली (पश्चिम) शाखा, मुंबई चे प्राधिकृत अधिकारी : ान-स-लाधारकार है बन्ध आहे हुईआ, जारदला। (पायन) आधा, मुबंध व आपकृत आंगकार वा तावानी सिंस्यूरियारी और केट किन्दुम्लक रोज स्थानतिकारी और अंग्रियारी पूर्व स्थानिकारी सिंस्यूरिट हैंटर अंग्रिट, २००२ अनके आणि करना १३(१) सिंस्यूरिट हैंटरट (एकसेसिट) रूपस, २००२ सम्मातिकारिकार आणि २००२ का आहे स्थानता वाप करना है। स्थानी स्थान आहे करना करना करना का स्थान का स्थानिकारी का अपना करना का स्थानिकारी का २०, ६२०२२ हों। स्थानी स्थान आहे स्थान स्थानिकारी का स्थानी का स्थानिकारी का स्थानी का स्थानिकारी का स्थानिकारी

एण माण्डण वायाचनाकारता उपलब्ध बळ्ळा स्ट्रामत अक्टच कलम १३ व्या उप-कलम (८) र तुद्रिन्यं कर्त्रदाचे लक्ष वेपण्यत वेश्व आहे. फैसी ऑक्टच्या अंतर्गत माण्णी सूचना जारी केल्यानंतर रक्ष्मेचा भएणा काही असल्यास दुली/तहजोडीच्या बेळी ते देव रक्कम निश्चित करण्यास गणले जाईल.

स्थान पिठकांची वर्णन आहर। स्थान पिठकांची वर्णन चे ते सर्व भाग आणि विभाग असलेली फ्रिक्तन - समृत्य गहाण चे फ्लंट क्र. ३०३, ३रा मजला ची-चित्र, जब असंबे कृषा चो-अंगे हार्किया सोसायटी, सिद्धी विनायक हॉस्पिटल लेन नव्यवर पेड, प्राहर्ट पुरेश) गांधे २००१ थी. शीसंता सहानंद सामंत्र आणि सी. पुना शीमंत्र सामंत्र वर्णस्था नावावर.

(प्राधिकृत अधिकारी) बँक ऑफ इंडिया

आयर्नवुड एज्युकेशन लिमिटेड

सीआव्यत् क्र.: एत६५९२७प्पाएव१९८३पीएतसी०३०८३८, वर्षामृत कार्यात्वयः केरप्रधायपुत हाकत, १त्वा मजता, ७०-सी तेवह रोड, होर्गिय शेजारी, विलेपार्ते (पूर्व), मुंबई-४०००९९. दू: ९१२२ २६६३१८३४ ई-मेल आपक्षी: os@ironwoodworld.oom, वैक्याइट: www.ironwoodwo

ई-मेल आयडी: cs@ironwoodworld.com, वेबसाइट: www.ironwoodworld.com ४० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि ई-व्होटिंग माहिती

ग पडील बार्बीची नोंद घेण्याची विनंती केली जात आहे

त.
पहर्तन वृत्तील वार्वीची नीर दोण्याची विशेती केली जाल आहे.
ज्या समादानी नांचे कर-अन्ति तारीण स्वाचेच मंत्राव्या, सट्वेंबर ११, २०२३ रोजी
ज्या समादानी नांचे कर-अन्ति तारीण स्वाचेच मंत्राव्या, सट्वेंबर ११, २०२३ रोजी
ज्या समादानी नांचे कर-अन्ति तारीण स्वाचेच मंत्राव्या समादानी प्रतास क्षेत्र कर सिंधा है - स्वाचेची दिवाली ते विशेष समादानी प्रतास अमादीत प्रतास केली विशेष है - स्वाचेची दिवाली केली स्वाचेची कर स्वाचेची है स्वाचेची स्वाचेची है स्वाचेची है स्वाचेची है स्वाचेची स्वाचेची है स्वाचेची स्वचेची स्वाचेची स्वाचेची स्वाचेची स्वाचेची स्वचेची स्वचेची स्वचेची स्वचचेची स्वचचेची स्वचचेची स्वचचेची स्वचचेची स्वचचेची स्वचचेची स्वचचेची स्वचचचेची स्वचचेची स्वचचेची स्वचचचेची स्वचचेची से स्वचचेची स्वचचचेची स्वचचेची स्वचचचेची से स्वचचचेची स्वचचचेची स्वचचचेची स्वचचचेची से स्वचचचेची स्वचचचेची से स्वचचचेची से स्वचचचेची से स्वचचचेची से स्वचचचेची से स्वचचचेची से स्वचचचचेची से स्वचचचेची से स्वचचचेची से स्वचचचेची से से स्वचचचेची से स्वचचचचेची से स्वचचचचेची से स्वचचचचेची से स्वचचचचेची स

इ-व्होरिंग/इ-व्होरिंगच्या संबंधात कोणत्याही प्रश्न किंवा समस्येसाठी.

ियों है : क्योंदिग है - क्योंदिग है - क्योंदिग हो स्वीव है । स्वाव है । स्वा

आयर्नवुड एज्युकेशन लिमिटेड करित

कर्ज वसली न्यायाधिकरण-१. मंबर्ड

भारत संसुता स्वाधावकरण न , पुबड़ (भारत सरकार, वित्त मंत्रात्व) २रा मजला, टेलिफोन भवन, कुलाबा मार्केट, कुलाबा, मुंबई-४००००५ (५वा मजला, सिंधिया हाऊस, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४०० ००१) ओ ए. क. ५४८ सन २०२२

ोटक महिंदा बँक लिमिटेड

विरुद्ध मन्नारली सिद्धिकी आणि अन्य.

प्रतिता ज्याअर्थी ओए/५४//२०२२ मन्याननिय पीतामीन अधिकारी/पर्वधकामयोः

विनंती केलेल्या अनुतोषांना मंजुरी का देऊ नये त्याची समन्सच्या बजावणीच्या तीस दिवसांत कारणे दाखविण्यासाठी;

दिवसांत काण्ये दाखांक्यासाठी; पूळ अर्बेदारांनी विनिर्दिष्ट केलेल्या मिळवती आणि मृद्धाळ अर्बोच्या अनु, क्रमांक ३१ अंतर्गत अर्बेदारांनी विनिर्दिष्ट केलेल्या मिळवती आणि मृद्यांच्यादित्तवा अर्वामाठांच्या अर्वाबदील सुनावणी आणि विकाल प्रत्यीवा असल्याने मृळ अर्वाच्या अर्वामाठांच्या अर्वाबदील सुनावणी आणि विकाल प्रत्यीवा असल्याने मृळ अर्वाच्या अर्वाण तारण समांचा च्यवहाल करण्यास किया त्या निकाली काढण्यास तम्हाला मञ्जाव करण्यात आला आहे.

तुम्ही न्यायाधिकरणाची पूर्व परवानगी घेतल्याखेरीज ज्यावर तारण हितसंबंध बनवर तु-हा-त्यावाधकरणाचा युव परवानाग वतात्यावराज ज्यावर तारण हतसबंध वनवल आहेत त्या कोणत्याही मतांची आणि/किंवा मूळ अर्जाच्या अनु. क्रमांक ३ए अंतर्गत जाहीर किंवा विनिर्देष्ट केलेत्या अन्य मत्ता आणि मिळकतींचे त्यांच्या व्यवसायाच्या सामान्य कामकाजाव्यतिरिक्त विक्री, भाडेपट्टा किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरण करणार नाहीत

ज्यस्तायां क्या नियमके कानकार्याच्या जायांच्या हिशाब देण्यास तुम्ही बांधील असाल ने यांच्या विक्रीतून रोकड झालेल्या विक्री रक्तमेचा हिशाब देण्यास तुम्ही बांधील असाल ने अशी विक्री रक्तम अशा मतांचर तारण हितसंबंध धारण करणाऱ्या बैंक किंवा वित्तीर संस्थेकडे टेवलेल्या खाल्यामध्ये जमा केली पाहिजे.

संस्थकड ठवलल्या खात्यामध्य जमा कला पाहिज, जुन्हाला ३१/१०/२०२३ सेजी दु. १२.०० वा. लेखी निवेदन सादर करून त्याची एक प्रत अर्जदारांना सादर करण्यांचे व प्रविधका समेर हजर राहण्याचे देखील निर्देश देण्यात येत आहेत. कसूर केल्यास, तुमच्या गैरहजेरीत अर्जावर सुनावणी होजन निकाल दिला

जाइल. गाइया हस्ते आणि ह्या न्यायाधिकरणाच्या शिक्क्याने ह्या दिनांक ०४ ऑगस्ट. २०२३ रोर्ज

कर्ज वसुली न्यायाधिकरण-१, मुंबर्

्रात. प्रतिवादी क. १

अशोक नगर हिल क्र. ३. होम गार्ड मागे. गाजी मस्जिद एलबीएस रोड जवळ. कर्ला (प.) प्रतिवादी क्र. २

कुर्ला (प.), मुंबई-४०००७०, महाराष्ट्र, भारत.

साकिरूत्रिणा सिद्धिकी ०५, अशोक नगर हिल रोड. ३, होम गार्ड मागे, गाजी मस्जिद एलबीएस रोड जवळ

PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED

Trainina | Trainina |

This Second Corrigents is no continuation and should be read no conjunction with the Letter of Otter dates August 27, 2023 ("Letter of Offer"), another cased August 27, 2023 ("Letter of Offer"), another cased August 28, 2023 (the "Corrigentad") in Corrigenta and Notice to Eighth Silvandroot stated August 28, 2023 (the "Corrigentad") in contraction with the Buyback as the context may require. The corrigentad is continued Eighth Some context may require, the corrigent and the corrigent and the context may require, an emitter of the table of Offer the Corrigenty and the context may be required to the context may be context and the context may be context and the context may be context and the context of the Corrigenty and disclosed that the Buyback Entitlement of the Promoter and Promoter Corrigen with the available for Eighth Shireholders who validy tender Additional Equity Shares over and above their respective Buyback Entitlement.

Buyback Entitlement. In order to bring greater cardly to Eligible Shareholders who wish to participate in the Buyback, the Buyback Entitlement for General Category for all other Eligible Shareholders after exclusing the Pomorter and Pomorter Group. Entitlement has increased from 1 (now) equity share cut of every 19 (Inineteen) fully positive equity shares had on the Record Date to 7 (Sevent) equity shares cut of every 17 (Sevent) equity shares bord over 18 (Sevent) equity shares out of every 17 (Sevent) equity shares bord to the Record Date. The Buyback Entitlement for Small Shareholders continues to be 7 (Seven) equity shares out of every 17 (Sevent) equity shares out of every 18 (Sevent) equity shares end of exclusing the Percenter and Promoter Compute is \$8.500 (Sevent) to 18 (Sevent) equity shares also on the Sevent equity shares may note that [Eligible Shareholders who have tendered their Equity Shares may note that

Eligible Shareholders who have tendered their Equity Shares may note that modification (cancillation and multiple bids are allowed using the Tendering Period. Please refer to Clause 20 (PROCEDURE FOR TENDER OFFER AND SETTLEMENT) of the Latter of Offer for details of participation in the Bulback.

ment on the Cover Page of the Letter of Offer and in th

BUYBACK ENTITLEMENT		
CATEGORY OF ELIGIBLE SHAREHOLDERS	Ratio of Buyback (i.e., Buyback Entitlement) *	
RESERVED CATEGORY FOR SMALL SHAREHOLDERS	7 (Seven) Equity Shares out of every 47 (Forty Seven) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date.	
GENERAL CATEGORY FOR ALL OTHER ELIGIBLE SHAREHOLDERS (EXCLUDING THE PROMOTER AND PROMOTER GROUP)	7 (Seven) Equity Shares out of every 71 (Seventy One) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date.	

LPROMOTER GROUP)

For Auther information on Falls of Buyback as part the Buyback Entitlement in eac Category, please reflet to paragraph 13.5 don page 37 of the Letter of Offer.

Paragraph 13.5. an page 56 of the Letter of Offers shall be replaced with:

19.5.3.1 nonciplance with Regulation of the Buyback Regulations, the resemble of the Supplement of the Supplement of the Supplement of the Supplement of Supplement of

rumuradium's 5.5.2.2 Based on the above and in accordance with Regulation 6 of the Buybar Sp.5.2.2 Based on the above and in accordance with Regulations, 21,00,000 (Them) One Lakhs) fluily paid-up Equity Shares have been reserve or Small Shareholders. Accordingly, General Category for all other Eligible Shareholde according the Pornovar and Powneter Group) shall consist of 1,19,00,000 (One Cru lineteent.akhs) Equity Shares.

Enutiement of Small Shareholders.

Paragraph 19.5.5 on Page 56 of the Letter of Offer shall be replaced with 19.5.6 Based on the above Purchase Envisions 1.

Category of Shareholders	Ratio of Buyback*	
Reserved category for Small Shareholders	7 (Seven) Equity Shares out of every 47 (Forty Seven) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date.	
General Category for all other Eligible Shareholders (excluding the Promoter and Promoter Group)	7 (Seven) Equity Shares out of every 71 (Seventy One) fully paid-up Equity Share: held on the Record Date.	

Unistor A/305, [

Any computation of intelligent and provides indicative Bylance Entitlement, and computation of intelligent Bylance Bulletine Sulphy this case the above Rela to Bylanch any provide suitably different number due to rounding-off. The eatural Bylance Entitlement factor for Reserved category of "small Shareholders" (sextluding the Promoter and Promoter Group) 98/272/E10/SMSP.

ote that there is no change in ratio of Buyback for Small Shareholde The change set out in Paragraph 3 of this Second Corrigenda shall also be applicable to the

a. aph 19.9.1.1 on Page 59 of the Letter of Offer the following sentence is to b

In Paragraph 19.3.1. On Page so of the Least or June 19 and Collection.

*As members of the Promoter and Promoter Group vide letters dated July 28, 2023 have expressed their intention not to participate in the Bulyback. No Bulyback Evollment or Promoter and Promoter Group will be available for Eligible Shareholder with validly tended Additional Equity Shares over and above their respective Supract Entitionent.

*Following the deletion of the afforesaid sentence, Paragraph 19.3.1 ton Page 35 of the Letter of Offer, shall read as:

**Acceptance of 100% Equity Shares from other Eligible Shareholders in the General Category with have validly indicated their Equity Shares, to the outered of their Bulyback Entitlement or the number of Equity Shares indicated by them, which view's lass.

**Shares of the Collection of the Additional Promote Shares in the Letter of Offer, shall produce their shall be shareholders in the Equity Shares in the state of their shall be shareholders in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Shares in the Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June 19 of The Collection Shares in the Letter of Offer emain unchanged.

**June

Place: Mumbai Date: September 1, 2023 Mr. Bipin Singh Company Secretary वसूली अधिकारी कार्यालय – ।/॥

कर्ज वसुली न्यायाधिकरण मुंबई (डीआरटी ३) पहिला मजला, MTNL रेलिफोन एक्सचैंज बिल्डिंग, सेक्टर-३० ए, वाणी, नवी मुंबई-४००%०३

पादका प्रतिता, MML उत्तराव इकारचा विविद्या, सांदर ३० ६ वर्षां, वर्षी युवं २००० RP M6.60 EP 203 यवका कायदा १९६१ च्या दूसन्या अनुसूर्योच्या तिवस ४८ अन्यये स्थावर माण्या जडाणपडणीचे वॉट, कर्ज व दिवाळावी अधिनियम १९५३ च्या वसुर्तासह वा वर्षा अधिक अधिक व्यवेदा विक्-द्व सुभाष ज्यंवक पेलमहाले व इतर

प्रती,
(सिर्व) २) श्री. सुमाय अंवक ऐत्पाहाले
(सिर्व) २) श्री. प्रमाय अंवक ऐत्पाहाले
(सिर्व) २) श्री. प्रमाय अंवक ऐत्पाहाले
(सिर्व) २) श्री. प्रमाय अंवक ऐत्पाहाले
(सिर्व) २) श्री. अक्तण आनंद ऐत्पाहाले
(सिर्व) २) श्री. अक्तण आनंद ऐत्पाहाले
सर्वोचा पोस्टालर प्रमान पाई. ता. दिवंदी, नाणिक-४२२४०७
सुन्ती पोडी करूकत रू. २, २, २, २, २, २० २, ०) (अश्वती क. लेत लाख यीस हजत दोनांगे तीस
कक्त) दि. २६/०४/२०२३ रोजी पोठासीन अधिकारी चांती नं. १२३५/२०१६ मध्ये
अवदर्शना २२२ च्या पुनामी प्रमायाल नं. ६० च्या संदर्भात व्याज आणि चर्चांचह, कर्ज सुन्दील वार्चांचिकण पूर्वेद (डीआरटी २)
सुन्दील वार्चांचिकण पूर्वेद (डीआरटी २)
सुन्तान वार्चांचिकण पूर्वेद (डीआरटी २)
अत्तराणी वार्चेत प्रमायाल प्रमाय स्थापे स्थारप्रमात
अत्राक्ताण वेषे, उपाली नाम्यु केलेल्या मालनंतिर कोणलाही प्रमाय सुन्त सुन्तरआकारणीं किंदा व्यवदार करने आणि सर्व व्यवतीचा कोणताही लाम घेण्याहा अस्तर सुन्तक
आकारणीं किंदा व्यवदार करने आणि सर्व व्यवतीच कोणताही लाम घेण्याहा स्थापात

मालमत्तेचे वर्णन

रोतजमीन बेअरींग सब्हें नं. ३४४ व ३४५ गव पांडे आणि हातनोरे, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक येथे. माझे सही व ऋणवसुली कार्यालयाच्या शिक्क्यानिशी दिली असे दि. १७/०७/२०२३

सही/- (दीपा सुब्रमण्यन) वसुली अधिकारी-| कर्ज वसुली न्यायाधिकरण मुंबई (डीआरटी ३)

जाहीर सुचना

आमच्या अशिलांच्या सूचनांतर्गत सूचना याद्वारे देण्यात येते की, आमही कोहितूर सीटीपरापल इन्फ्रास्टक्यर कंपनी प्रायक्हेट लिगिटेड नागधिकात तगास कतत आहोत, कंपनी कायत १९५६ च्या तार्तुर्दिसार रोतस नॉल्पीकृत कंपनी, तिचे नॉल्पीकृत कार्यात्य कोहित्र सकेअर, एन. सी. केळकर रोड, शिवाजी पर्क, दारद (पश्चिम) मुंबई –४०००२८ येथे

कोहिन्द संकेआ, एव. सी. केळकर रोड, विश्वाची पार्क, दारद (पश्चिम) मुंबई -४०००२८ येथे आहे.

कोणनावी जस्ति किंवा जकतिंग वास्तीत नामुद मिळकत किंवा त्यावदांत कोणनावी सामामध्ये कोणनावी दाना, माण्यी, नोआ, हक, नामाध्यिकर आणि किंवा किंवा हिन्द संकार केणनाती काल, विज्ञा हकतीं में प्रात्ता, काण्या, नेआ, हक, नामाध्यकर कोणनाती काल, किंवी, हस्तीत, प्रात्ता, उपार, प्रात्ता, प्रात्ता, वांत्री, कुवावित्तर, त्याच्या हैक, अतिस्तानक, मोश्युट, उपार्थ्य प्रदूर, किंवा, केंद्र केलाती काल, किंवा, हस्तीत, प्रात्ता, हमाने प्रात्ता, वांत्री, क्रात्ताची हक, अतिस्तानक, प्रात्ताची हक, अतिस्तानक, प्रात्ताची हक, अतिस्तानक, प्रात्ताची हक, कींद्र केलात्याची हक, अतिस्ताताची हक, अतिस्ताताची हक, विश्वाची हक, व

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OF INDIRECTLY OUTDIDE INJU.

NOT EXPLAIN THE LASE FURTHERS FOR THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES
AND EXCHANGE BOARD OF BION (RISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REPORTEMENTS), REQUIRATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBILOR REGULATIONS,").

PUBLIC ANNOUNCEMENT





ARKADE DEVELOPERS LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Arkade Developers Private Limited', at Mumbai as a private limited company under the Companies Act, 1956 and received a certificate of incorporation issued by the RoC, on May 13, 1980. Thereaffer, our Company was converted into a public limited company, pursuant to a special resolution property of the private of the property of the private into a public limited company, pursuant to a special resolution property of the private into a public limited company, pursuant to a special resolution of the RoC on July 7, 2023. For further details in relation to changes in the Registered Office of our Company, see "History and Certain Cuprorate Matters" on page 226 of the Draft Red Hering Prospects us dated August 10, 2021 ("DRAP").

Herring Prospectus dated August 31, 2023 ("DRIP").

Registered and Corporate Office: Arkede House, Opp. Broom Arkade, Near Children's Academy, A S Marg, Ashok Nagar, Kandivali (East), Mumbai - 400101 Maharashtra, India. Contact Person: Sheetal Hisraris Solani, Company Secretary and Compliance Officer, Email: co@arkade in; Tel: -91 (22) 28874742; and Website: www.arkade.in, Corporate Identification Number: U42004H1598F(1020814).

OUR PROMOTER: AMIT MANGILAL JAIN

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH (EQUITY SHARES) OF ARKADE DEVELOPERS LIMITED (COMPANY) FOR CASH AT A PRICE OF [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUN OF [•] PER EQUITY SHARE) (ISSUE PRICE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,300.00 MILLION (ISSUE). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [•] vo. The POST-SISUE PROJUP EQUITY SHARE (INCLO KOMPANY.

MILLION (ISSUE), THE ISSUE SHALL CONSTITUTE (=)% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. ON OUR COMPANY. ON CONSULTATION WITH THE BEILM, MAY CONSIDER A REP-OF PLACEMENT AGGREGATING UP TO 200 00 MILLION, PRIOR TO FILING OF THE REP HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PER-POP PLACEMENT SHALL BE UNDERTAKEN AT THE DISCRETION OF OUR COMPANY. NOT NOTIFICATION WITH THE PRICE OF THE COUNTY SHARES ALLOTTED PURSUANT TO THE PRE-POP PLACEMENT SHALL BE DETERMINED BY OUR COMPANY. IN CONSULTATION WITH THE BIRLING HER PRE-POP PLACEMENT IS COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BIRLING HER PRE-POP PLACEMENT IS COMPANY IN CONSULTATION WITH THE SISUE COMPANY IN CONSULTATION WITH THE SISUE COMPANY. IN CONSULTATION WITH THE PRE-POP PLACEMENT SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE ISSUE FINEL SHE INCLIDES A RESERVATION OF UP TO [4] EQUITY SHARE AS CORRECATING UP PLACEMENT SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE ISSUE FINEL SHE INCLIDES A RESERVATION OF UP TO [4] EQUITY SHARE AS CORRECATING UP TO [5] AND A SHARE AS CORRECATING UP TO [6] A SHARE AS CORRECATION UP TO [6] A SHARE AS CORRECATING UP TO [6] A SHARE AS CORRECATION UP TO [6] A SHARE AS CORRECATING UP TO [6] A SHARE

OF RIGHT SHARE TO THE ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION (EMPLOYEE DISCOUNT), SUBJECT TO RECESSARY APPROVIALS AS MAY BE REQUIRED. THE ISSUE LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREMAFTER REFERENCE AS THE RESULTS THE RESULTS THE RESULTS AND THE MERIT SHARE CAPTILE. TO AS THE NET ISSUE. THE ISSUE AND THE MERIT SHARE CAPTILE. THE FACE VALUE OF THE EDUITY SHARES IS A TIES CHAND THE SUBJECT HE FACE IS A TIME THE EDUITY SHARES THE PRICE BAND. EMPLOYEE DISCOUNT, IF ANY, AND THE MINIMINE DID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RINNING LEAD MANAGER REBUIN AND WILL BE ADVENTED BY ALL EDITIONS OF [A.) ARE ASSENTED AND A

REGULATIONS).

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least 3 additional Working Days after such revision in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least 3 additional Working Days after such revision in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least 3 additional Working Days, after such revision in the Price Band, so the Price Band, the Bid/Issue Period Revision of the Price Band, subject to the Bid/Issue Period Company may, in consultation with BRILM for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period or a minimum of 3 Working Days, subject to the Bid/Issue Period necessary (and the Bid/Issue Period Issue). The Price Band is the Price Band and the revised Bid/Issue, shall be widely discussionated by notification to the Bod/Exchanges, by sauring press, and also by indicating the change on the solested of the BRLM and at the terminals of the other members of the Syndicate and by intrinstion to the Designated Intermediaries and the Sponord Banklot, as applicable.

indicating the change on the website of the SRLM and at the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to the Designated Intermediances and the Sponsor Bank(s), as spiliciable.

The Issue is being made in members of Rule 19(2)(b) of the Securities Contacts (Regulation) Rules, 1957 (SCRR), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Issue is being made in accordance with Regulation (1) of the SEBI ICDR Regulations, through the Book Building Process wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionable basis to Qualified Institutional Buyers (OBIs) (such portion referred to as OBIs Portion), provided that our Company, in consultation with the BRLM may allocate up to 60% of the OBI Portion to Anchor Investor on a discretionary basis in accordance with the SEIN (Anchor Investor Portion), tout of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds on above the process within allocation in the Anchor Investor's (Anchor Investor Portion), and the SEIN ICDR Regulations of above the process within allocation in the Anchor Investor (Anchor Investor Portion), and the salarice Equity Shares shall be added to the National Portions. The SEIN ICDR Regulation of the National Portions in the SEIN ICDR Regulation of the National Portions in the Anchor Investor Portion, the salarice Equity Shares shall be added to the National Portions and the available for addecation or an approximate basis to all Selds being received for addecation or an approximate basis to all Selds being received and and the salarice for addecation or an approximate basis and the available for addecation or an approximate basis to Non-institutional Investors and or which (a) one-third of such portion shall be examisted for the National Selds of the Nationa

participate in the Issue through the ASBA process. For further details, see "Issue Procedure" on page 415 of the DRIP.

This public amountament is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI LICAR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approveds, market conditions and other considerations, to undertake an proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approveds, market conditions and other considerations, to undertake an SEBI statutory and requirements of the SEBI ICAR Regulations, the DRIP files with SEBI statut be made public for commands. If any, for a portion of all statut of the Care that the the Care that

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any tunds in the issue unless they can afford to take the risk of basing their entire investment investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the issue. For taking an investment decision in the issue. For taking an investment decision makes the read of the risk of the content of the DRHP. Specific alterial on of the investors is invited to PRAP and the contents of the DRHP. Specific alterial on of the investors is invited to PRAP and the CRHP.

risor returns on page 200 till but inthi-Any disclosion to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus ("RHP") has been filed with the RoC and must be made soldly on the basis of suck RHP as ther on the benefit changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be tisted on the main board of the Stock Exchanges. For details of the share capital and capital shutcher of our Company, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page 75 of the DRHP. The liability of members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 226 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
UNETONE	Bigshare Services Pvt. Ltd.
ne Capital Private Limited Dynasty Business Park, Andheri-Kurla Road, Andheri East, 1-40 059, Maharastria, India. 1-982005733 mb@unistonecapital.com e: www.unistonecapital.com e: www.unistonecapital.com e: www.unistonecapital.com	Bigshare Services Private Limited Office No. S6-2, 6" Floor, Prinade Business Park, Next to Altura Centre, Martialai Caves Road, Andheri East, Mambai - 400093, Maharashira, India. Tel: -91-22-6238200 E-mail: pog@Spareonline.com Webste: www.bigshareonline.com Investor grievance – mail: investor@bigshareonline.com

Contact Person: Brijesh Parekh SEBI Registration Number: INM000012449 Contact Person: Jibu John SEBI Registration Number: INR000001385 All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the sa ing as ascribed to them in the DRHP.

For ARKADE DEVELOPERS LIMITED

ARKADE DEVELOPERS LIMITED is proposing, subject to the receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations for undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated August 31, 2023 with the SEBI on September 1, 2023 and thereafter with the Stock Exchanges. The DRHP is available to the website of SEBI at www sebits of the Stock Exchanges is a SEB Limitide and National Stock Exchanges is a S

Investment opcision.
This amountement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in the sound to defined or sold in the United States absent negistration under the U.S. Securities Act or an exemption from such registration. Accordingly, the Equity Share being offered and sold outside the United States in this/over bransactions's self-limited in and in relation on Regulation Studen the U.S. Securities Act and the sold south of the United States in this work in proceedings and an exemption from such registration. Accordingly, the Equity Share were the present of the States will be under the United States will